



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1055) पटना, बुधवार, 16 सितम्बर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

21 जुलाई 2015

सं0 1269—श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी (सरोजा ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पोस्ट—सरोजा, थाना—सिमरी बख्तियारपुर, जिला—सहरसा पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 1594 है।

इस न्यास के महंत बाबा गुरुचरण दास का स्वर्गवास दिनांक 28.04.2011 को होने के पश्चात् न्यासधारी के रिक्त पद पर उनके शिष्य श्री सीताराम दास को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-33 के तहत अगले एक वर्ष के लिए अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। बाद में इनके उपर यह आरोप लगा कि यह विरक्त महात्मा नहीं हैं यानि गृहस्थ आश्रम से साधु जीवन में आये हैं। इस बिन्दु पर दोनों पक्षों को दिनांक 20.02.2015 को सुना गया। सुनवाई के दौरान उभय पक्षों में यह सहमति बनी कि श्री सीताराम दास को न्यासधारी रखते हुए एक समिति का गठन किया जाए और महंत सीताराम दास जी को इस शर्त पर महंत बने रहने दिया जाता है कि वे अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह परित्याग कर देंगे और भविष्य में यदि कोई प्रमाण पाया गया कि इन्होंने मन्दिर/मठ की सम्पत्ति अपने गृहस्थ जीवन वाले घर पर भेजा है तो फिर ऐसी स्थिति में इनकी निरन्तरता नहीं रह पायेगी किन्तु मन्दिर/मठ के प्रति निष्ठावान रहने की स्थिति में ये महंत (न्यासधारी) का काम करते रहेंगे और इनका सहयोग न्यास समिति करती रहेगी।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी (सरोजा ठाकुरवाड़ी), ग्राम+पोस्ट—सरोजा, थाना—सिमरी बख्तियारपुर, जिला—सहरसा की सम्पत्तियों की सुरक्षा संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “राम जानकी ठाकुरवाड़ी (सरोजा ठाकुरवाड़ी), न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “राम जानकी ठाकुरवाड़ी (सरोजा ठाकुरवाड़ी), न्यास समिति,” होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
  4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
  5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
  6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
  7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
  8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
  9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
  10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
  11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
  12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 23.07.2015 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) श्री कुशेश्वर यादव, ग्राम-करुआ, पोस्ट-रामपुर, जिला-सहरसा	—	अध्यक्ष
(2) श्री ललन यादव, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सचिव
(3) श्री रामनारायण यादव, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	कोषाध्यक्ष
(4) श्री कमल शर्मा, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य
(5) श्री गुलाब सिंह उर्फ कारी सिंह, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य
(6) श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य
(7) श्री पृथ्वी प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य
(8) श्री गोपाल प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य
(9) श्री सुबेदार दास, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य
(10) श्री बदुरण सादा, ग्राम+पोस्ट-सरोजा, जिला-सहरसा	—	सदस्य

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1055-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>